

Ref No.: SECY/S-16/2024

14th February, 2024

BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400001
Ph.No.: 022-22723121

COMPANY NO. 507828

**SUB: NEWSPAPER ADVERTISEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
(STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND NINE
MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2023.**

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper clipping of publication of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2023 which have been approved by the Board of Directors at its meeting held on Tuesday, 13th February, 2024.

The said Financial Results were published in **Business Standard** (English and Hindi), New Delhi Edition dated 14th February, 2024.

This is for your information and records please.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Ansal Housing Limited

(Shalini Talwar)
Company Secretary
M.No.: A46139

Ansal Housing Limited

— An ISO 9001:2015 Company —

(Formerly known as Ansal Housing & Construction Ltd.)

Regd. Office : 606, 6th Floor, Indra Prakash, 21, Barakhamba Road, New Delhi - 110001, Ph. : 91-11-23317466, 23315108
Head Office : 2F-AHCL, 2nd Floor, Ansal Plaza, Sector-1, Vaishali, Ghaziabad, U.P. - 201010, Ph. : 91-120-3854000, 4195100
E-mail : ahl@ansals.com Website : www.ansals.com  www.facebook.com/AnsalsHousing CIN : L45201DL1983PLC016821

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that due to certain unavoidable circumstances, the Public Auction (of pledged ornaments-NPA accounts) by our client M/s. Muthoot Finance Ltd. scheduled for 14th & 17th February 2024 stand postponed and re-scheduled for 01st & 07th March 2024 respectively.

Kohli & Sobti Advocates,

A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110024

Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client. Customer can also contact to Email ID: recoverynorth@muthootgroup.com or Call on 7834886464, 7994452461.

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that due to certain unavoidable circumstances, the Public Auction (of pledged ornaments-NPA accounts) by our client M/s. Muthoot Finance Ltd. scheduled for 16th & 19th February 2024 stand postponed and re-scheduled for 04th & 05th March 2024 respectively.

Kohli & Sobti Advocates,

A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110024

Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client. Customer can also contact to Email ID: recoverynorth@muthootgroup.com or Call on 7834886464, 7994452461.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to Public at large that, M/s Ajnara India Limited ("Company") had sought funding for their housing project namely "Grand Ajnara Heritage" ("Project"), situated at Plot No. GH-01/B, Sector 74, Noida, District, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh from our client, Tata Capital Housing Finance Limited ("Client") and in order to secure the loan, security interest had been created on the said project along with the unsold units/flats in the said project in favour of our Client (hereinafter referred as "secured assets").

The list/details of unsold units/flats mentioned below is based on records of our client:- G-803, G-1302, A-1002, B-601, D-1105, D-901, D-906, E-304, E-402, E-706, E-805, F-1006, F-12A02, F-806, F-304, F-12A05, F-1204, F-1404, L-002, L-1503, M-306, L-1603, L-1702, L-1803, N-12A02, N-802, O-301, O-603, O-901, O-004, O-104, O-1504, O-1604, O-204, O-304, O-1004, K-2210, K-1807, K-504, K-2106, K-508, K-308, K-409, K-306, K-1509, K-403, K-12A11, K-1006, K-410, K-906, K-310, K-1703, K-1209, K-908, K-502, K-1203, K-1211, K-2311, K-609, K-2104, K-2403, K-2411, K-2011, K-904, K-802, K-2111, K-701, K-1201, K-1102, K-902, K-12A04, K-2404, K-2410, K-1402, K-1502, K-302, K-2102, K-1601, K-2107, K-1002, K-1202, K-12A12, K-1602, K-202, K-2402, K-2501, K-2502, LGF-02, LGF-03, LGF-04, LGF-06, LGF-07, LGF-08, LGF-10, LGF-12, LGF-12A, UGF-01, UGF-04, UGF-08, UGF-10, UGF-11, UGF-12, UGF-12A, UGF-15, UGF-18

The public in general and the Borrowers are hereby cautioned not to deal with the above mentioned unsold units and/or property or create any third party rights by way of sale, transfer, lease, leave and licence, rent, mortgage etc. without obtaining a written NOC from Tata Capital Housing Finance Limited and complying with the conditions mentioned in such NOC. Any person who deals with the secured assets, it shall be at his/her own risk and peril.

Please note, that Hon'ble NCLT, Delhi vide order dated 20.09.2022 in CP(IB)194(ND)/2021, initiated Corporate Insolvency Resolution Process against M/s Ajnara India Limited. Thereafter an appeal bearing CA(AT)(Ins) no. 1243/2022 was filed by the suspended director of M/s Ajnara India Limited, wherein the Hon'ble NCLAT, Delhi has passed certain interim directions vide order dated 17.10.2022 and 11.01.2023 (including at present, confining the CIRP to only Ajnara Ambrosia Project), therefore, as such the matter is sub-judice before the Hon'ble NCLAT, Delhi.

Anand sharma and Associates, Solicitors & Advocates,

303 & 404, Silver Arch Apartments, 22, Firozshah Road, New Delhi-110001

office@anandsharmaassociates.com, arman@anandsharmaassociates.com Tel:011-41616171, 41616145

ITL FINLEASE & SECURITIES LIMITED

Registered Office:- B-08, GD-TL Tower, Top Floor, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034 E-Mail: cs@itlfinlease@gmail.com, Website: www.itlfinlease.in, Ph No- 01127352981

Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended on December 31, 2023

Table with 5 columns: Sl. No., Particulars, Quarter ended (31/12/2023) Un-audited, 9 months ended (31/12/2023) Un-audited, Corresponding quarter ended in the previous year (31/12/2022) Un-audited, Previous Year Ended (31.03.2023) Audited.

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of standalone Un-audited Financial Results for the quarter ended on December 31, 2023 filed with the Stock Exchange MSEI under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

For ITL FINLEASE & SECURITIES LIMITED Sd/- B.L.GUPTA (DIRECTOR) DIN : 00143031

Place : Delhi Date : 12.02.2024

PRAKASH STEELAGE LIMITED

Regd. Office: 101, 1st Floor, Shatrunjay Apartment, 28, Sindhi Lane, Nanubhai Desai Road, Mumbai - 400 004. Email: cs@prakashsteelage.com Website: www.prakashsteelage.com Tel. No.: 022 66134500 Fax No.: 022 66134599

Extract of Statement of Audited Financial Results for the Quarter And Nine Months ended 31st December, 2023

Table with 7 columns: Sr. No., Particulars, Quarter Ended (31.12.2023 Unaudited), 30.09.2023 Unaudited, 31.12.2022 Unaudited, Nine Months Ended (31.12.2023 Unaudited), 31.12.2022 Unaudited, Year Ended (31.03.2023 Audited).

NOTES: a) The statement of financial results has been prepared with the Indian Accounting Standards (Ind As) prescribed under section 133 of Companies Act 2013 with relevant rules issued there under and recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

By order of the Board For Prakash Steelage Ltd. Ashok M. Seth CFO & Executive Director DIN : 00309706

Place : Mumbai Date : 13th February, 2024

NORTHERN RAILWAY (E-Auction Notice)

Sr. Divisional Commercial Manager/PS, Northern Railway, Delhi Division, invites bids through e-Auction through IREPS (https://ireps.gov.in/) for the allotment of Deluxe Pay & Use Toilet contracts on BOT & ROMT basis, at following Railway stations/locations:-

Table with 3 columns: E-Catalogue No., Date & Time of bidding, Railway Stations/Locations/Sites.

Website particulars where complete details of E-Auction can be seen : https://ireps.gov.in/


All contractors who intend to participate in the e-auctions conducted through E-Auction Leasing module of IREPS should fulfil following mandatory requirements before they can submit their bids:

- Registration on IREPS for E-Auction Leasing module -Active IREPS User Account for E-Auction Leasing Module. - Payment of One Time Registration Fee; Current Account in State Bank of India; Integration of SBI Bank Account with IREPS Account; Lien Marking of Funds; Update of Turnover Details. - A new mechanism namely Virtual Account Number (VAN) has been introduced now for E-Auction Leasing module, which can be used by the bidders as an alternative to Lien Marking Mechanism.

Railway Authority to contact, in case of any query : Divisional Railway Manager's Office, Commercial Branch, State Entry Road, New Delhi-110055; Email: sanitationcell@gmail.com, Tel: 011-23743084

No.: 7PUB/TN/Pay&UseToilets/Auction/2022 Dated: 13.02.2024 488/2024

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE



Regd. Office : 606, 6th Floor, Indra Prakash, 21, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Head Office : 2F-AHCL, 2nd Floor, Ansal Plaza, Sector-1, Vaishali, Ghaziabad, U.P. - 201010 Tel. : 0120-3854000 | E-mail : ahl@ansals.com | Website : www.ansals.com CIN : L45201DL1983PLC016821

Ansal Housing Limited - An ISO 9001:2015 Company

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2023 (Rs. in Lakh) except EPS

Large financial table with columns for Sr. No., Particulars, Standalone (Quarter Ended, Nine Months Ended, Year Ended), Consolidated (Quarter Ended, Nine Months Ended, Year Ended).

NOTES: 1. The Financial Results are in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time.

Place : Vaishali, Ghaziabad Dated : 13th February, 2024

POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 14.03.2022 calling upon the Borrower(s) JITENDER GARG PROPRIETOR NEHA PLASTIC, BRIJ LATA AND RAHUL GARG to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 17,27,972.60 (Rupees Seventeen Lakh Twenty Seven Thousand Nine Hundred Seventy Two and Paise Sixty only) against Loan Account No. HHLKUN00462978 as on 11.03.2022 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower (s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower (s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 08.02.2024. The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs. 17,27,972.60 (Rupees Seventeen Lakh Twenty Seven Thousand Nine Hundred Seventy Two and Paise Sixty only) as on 11.03.2022 and interest thereon.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY FLAT NO T-37/TF, HAVING SUPER AREA OF 1164 SQ. FT., TUSCAN FLOOR, TDI TUSCAN CITY, KUNDLI, SONEPAT-131001, HARYANA.

Date : 08.02.2024 Sd/- Authorized Officer Place : SONEPAT INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

EMS Limited advertisement with logo, headline 'Shaping Tomorrow's World Through Sustainable Innovation', and financial performance table. The table shows Particulars (Rs in Lakhs) for 9M CY, 9M PY, Y-O-Y% Increase, Q3 CY, Q3 PY, and Q-O-Q% Increase.

12-02-2024 Ghaziabad Sd/- (Ashish Tomar) Managing Director Din No. 0317094 www.ems.co.in

IDBI Capital रिचव चलेज विधि के तहत ई-नीलामी के माध्यम से पात्र एआरसी को मेटर्न लिमिटेड ("एम्एल") के तनावग्रस्त ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण के संबंध में विज्ञापन

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ("आईडीबीआईएमएल") एआरसी बैंक और अन्य संघ स्थापनाओं ("उपायवाहक") को और से इनसे संबंधित प्रकृति के तहत ई-नीलामी के माध्यम से "जेस" के तहत "जेस" को "जेस" के तहत "जेस" और "एडिटर" के माध्यम से रुपये 30,40,00,000 करोड़ (रुपये तीस हज़ार चारसौ करोड़ और तीन लाख मात्र) के प्रत्याभूत वित्तीय लेनदारों के स्वीकृत ऋणों के साथ मेटर्न लिमिटेड ("एम्एल") खाता के तनावग्रस्त ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/विद्यमान ऋण जारी विनियम पात्र एआरसी ("पात्र प्रतिमात्रियों") से लानु, तनावग्रस्त ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूद दिशानिर्देशों के अनुसार रचि की अभिव्यक्ति ("ईओआई") आमंत्रित करता है। ऋणदाता ऋण जोखिम से संबंधित किसी भी परिचालन, कानूनी या किसी अन्य प्रकार के जोखिम को नहीं मानने और एम्एल के लिए कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी प्रदान नहीं करने। सभी इच्छुक पात्र प्रतिमात्रियों से अनुरोध है कि वे "रचि की अभिव्यक्ति" (ईओआई) के माध्यम से और एक नि:अनुकूलन समझौते को निष्पादित करके ई-नीलामी में भाग लेने की अपनी इच्छा प्रस्तुत करें। ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी, 2024 है। इच्छुक बोलीदाता बैंक की वेब साइट <https://bank.sbi> को भी देख सकते हैं और अधिक जानकारी (अन-ऑफर) के लिए SEBI in news > Auction Notice > ARC & DRT लिंक या www.idbicapital.com पर क्लिक कर सकते हैं और निविदा और बोली पर क्लिक कर सकते हैं। इच्छुक पात्रियों को अद्यतनकारी से संपर्क कर सकते हैं:

संपर्क व्यक्तियों	उपनाम	संपर्क विवरण	ईमेल आईडी
अभिषेक कुमार	एजीएम, एम्एलसी 1, नई दिल्ली	9910855100	abhishek.kumar18@sbi.co.in
सिद्धू वलायुधान	एजीएम, एम्एलसी 2, नई दिल्ली	6261093969	shiju.velayudhan@sbi.co.in
ओमकार जोशी	वरिष्ठ कार्यकारी आईडीबीआईएमएल	+91 22 2217 1897 / 9619544352	omkar.joshi@idbicapital.com

मुद्रपात्र ध्यान में कि इस विज्ञापन में पहचानित ई-नीलामी प्रक्रिया ऋणदाताओं के समग्र प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन के अधीन होगी। इसके अलावा, ऋणदाता वेबसाइट पर बुद्धिपूर्वक अन्वेषण करके कोई सारांश नहीं, किसी भी स्तर पर इस विज्ञापन और प्रक्रिया दस्तावेज को रद्द करने या संशोधित करने, संशोधित करने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। यह एक प्रस्ताव दस्तावेज नहीं है और बिना किसी प्रतिबद्धता के जारी किया जा रहा है। इस संबंध में ऋणदाताओं का निवेदन अंतिम और बाध्यकारी होगा।

स्थान: मुंबई द्वारा जारी किया गया दिनांक: 14.02.2024 आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

U. P. STATE SUGAR CORPORATION LTD.
VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW-226010
Ph. No. 0522-2307826/28 www.upsugcorp.in
Email: upstatesugarcorporation@gmail.com

Ref.No.: PUR/SSC/Tender/2024-25/1488 Dated : 13.02.2024

Short Term e-Tender Notice

Online e-tenders are invited from manufacturers/authorized distributors/ Importers/ Authorized dealers (as per details given in tender documents) for supply of Stainless Steel Tubes, Boiler Tubes, Packing & Jointing, Roller shaft, Roller Re-shelling, V-belts, Nickel Screen, Cast Steel Items, Motors, & Domite Tips to various Sugar Factories of U. P. State Sugar Corporation Ltd.. The e-tender documents with detailed specifications, make, terms and conditions etc., can be downloaded from e-tender portal <http://etender.up.nic.in> & Sugar Corporation's website: www.upsugcorp.in from time to time, starting from **14.02.2024**.

The Managing Director, Sugar Corporation reserves the right to cancel any or all bids/annul e-bidding process without assigning any reason to & decision of Corporation will be final & binding.

MANAGING DIRECTOR

GENUS POWER INFRASTRUCTURES LIMITED
Regd. Office : G-123, Sector-63, Noida-201307, Uttar Pradesh (Tel.:+91-120-2581999)
Corporate Office: SPL-3, RICO Industrial Area, Sitapura, Tonk Road, Jaipur-302022, Rajasthan
Ph..0141-7102400/500, Fax: 0141-2770319, E-mail: cs@genus.in, Website: www.genuspowers.com, CIN: LS1909UP1992PLC051997

(Rs. in Lakhs)

EXTRACT OF THE STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED DECEMBER 31, 2023

S.No	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter Ended	Nine Month Ended	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	Nine Month Ended	Quarter Ended	Year Ended
		31 Dec. 23	31 Dec. 23	31 Dec. 23	31 March, 23	31 Dec. 23	31 Dec. 23	31 Dec. 23	31 March, 23
1	Total income from operations	25,827.80	77,834.89	20,039.57	80,838.55	25,827.80	77,834.89	20,039.57	80,838.55
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,165.43	6,433.32	1,645.46	5,027.37	620.20	9,412.38	2,954.17	4,480.92
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,165.43	6,433.32	1,645.46	5,027.37	620.20	9,412.38	2,954.17	4,480.92
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,352.32	4,379.85	1,164.44	3,498.42	(992.44)	6,231.76	2,179.25	2,897.43
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,352.99	4,526.12	1,164.46	3,435.05	(991.77)	6,378.03	2,179.27	2,834.06
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re.1/- each)	2,577.76	2,577.76	2,575.95	2,575.95	2,577.76	2,577.76	2,575.95	2,575.95
7	Other equity (Reserves)	-	-	-	95,879.23	-	-	-	95,719.39
8	Earnings Per Share (Face value of Re.1/- each) (for continuing and discontinued operations) - (not annualised) (Amount in Rs.)	0.52	1.70	0.45	1.36	(0.43)	2.71	0.95	1.26
	Diluted:	0.51	1.67	0.45	1.35	(0.43)	2.65	0.94	1.25

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the financial results are available on Company's website at www.genuspowers.com and the Stock Exchanges website (www.nseindia.com and www.bseindia.com).

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
(Rajendra Kumar Agarwal)
Managing Director & CEO
DIN: 00011127

Place: Jaipur
Date : February 13, 2024

PG ELECTROPLAST LIMITED
(CIN L32109DL2003PLC119416)
Regd. Office : DTJ209, DLF Tower B, Jasola, New Delhi-110025;
Tel-Fax: 011-41421439; Email: investors@pgel.in; Website: www.pgel.in

EXTRACTS OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2023 (Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended Dec 31, 2023	Quarter Ended Sep 30, 2023	year ended March 31, 2023	Quarter Ended Dec 31, 2023	Quarter Ended Sep 30, 2023	year ended March 31, 2023
1	Total Income from Operations	33926.83	39,180.29	133114.65	53,188.46	46,042.21	215,994.75
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional items and/or Extraordinary items)	2862.22	2,590.97	5688.25	2,598.97	1,759.96	9,754.32
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	2862.22	2,590.97	5688.25	2,598.97	1,759.96	9,754.32
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	2168.26	1,969.07	4419.99	1,923.51	1,236.51	7,746.86
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2150.86	1,937.99	4424.27	1,917.87	1,205.59	7,743.82
6	Equity Share Capital of Face Value Rs. 10/- each	2602.46	2602.46	2274.26	2602.46	2602.46	2274.26
7	Reserves (excluding revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet as on 31 March 2023			33577.6			37,318.52
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Basic	8.44	8.34	20.42	7.17	4.99	35.78
9	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Diluted	8.30	8.22	19.27	7.05	4.88	33.77

Note:-
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com & www.nseindia.com and the website of the Company at www.pgel.in.

For PG Electroplast Limited
Sd/-
Vikas Gupta
Managing Director-Operations

Place: Greater Noida, U.P.
Dated: 13th February, 2024

दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड
CIN: L29130HR1986PLC081555
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नंबर 24, 25, 26, आईएमटी मानेसर, सेक्टर-7, गुरुग्राम-122050, हरियाणा
कार्यालय : मिलेनियम प्लाजा, टावर-बी, सुशांत लोक-1, सेक्टर-27, गुरुग्राम-122002, हरियाणा
फोन : + 91(124) 4715100 Fax: + 91(124) 2806085
वेबसाइट : www.thehitechgears.com, ई-मेल : secretarial@thehitechgears.com

दिसम्बर 31, 2023 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु अनेकक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण
(रु. मिलियन में, सियाय प्रति शेयर डेटा)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त	तिमाही समाप्त	नौ माह समाप्त
		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023
1.	परिचालन से कुल आय	2,750.77	2,793.45	8,265.93
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	198.49	77.57	396.87
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	197.46	77.57	1,167.44
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर परचात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	149.14	25.74	964.29
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर परचात) तथा अन्य समावेशी आय (कर परचात) शामिल है]	168.56	41.60	1,014.50
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	187.68	187.68	187.68
7.	संचय/अन्य इक्विटी जैसाकि अनेकक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है	-	-	-
8.	प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/- प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचालनों हेतु) - (ख) मूल : (ख) तनुकृत :	7.95 7.93	1.37 1.37	51.38 51.29

नोट्स :-
1) उक्त अनेकक्षित समेकित परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा फरवरी 13, 2024 को आयोजित उसकी बैठक में पुनरीक्षित किए गए थे और तदुपरांत कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा फरवरी 13, 2024 को सम्मन उसकी बैठक में अनुमोदित किए गए थे।
2) उपरोक्त विवरण सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल किए गए दिसम्बर 31, 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह हेतु समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारकित रूप है।
3) सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 47(1)(ख) के अनुसार, कम्पनी की मुख्य पृथक्कृत अनेकक्षित वित्तीय सूचना के विषय में अतिरिक्त सूचना नीचे दी गई है:

विवरण	तिमाही समाप्त	तिमाही समाप्त	नौ माह समाप्त
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023
परिचालन से आय और अन्य आय	1,952.32	1,858.35	5,825.31
कर पूर्व लाभ	176.49	172.89	450.79
कर परचात लाभ	126.75	119.74	330.51

4) दिसम्बर 31, 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह हेतु वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.nseindia.com एवं www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.thehitechgears.com) पर उपलब्ध है।
कुले एवं हिते निदेशक मंडल दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड हस्ता./-
दीप कपुरिया
कार्यकारी अध्यक्ष
(DIN: 00006185)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : फरवरी 13, 2024

ansal HOUSING ENRICHING LIVING STYLES पंजीकृत कार्यालय 606, 6वां तल, इंद्र प्रकाश, 21 बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001
प्रधान कार्यालय 2एफ-एचसीएल, दूसरा तल, अंसल प्लाजा, सेक्टर-1, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.-201010
फोन : 0120-3854000 | ई-मेल : ahl@ansals.com | वेबसाइट : www.ansals.com | सीआईएन : L45201DL1983PLC016821

Ansal Housing Limited
— An ISO 9001:2015 Company —

31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही/नौ माह के लिए एकल और समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार
(रुपये लाखों में) ईक्विटी को छोड़कर

क्र. सं.	विवरण	एकल			समेकित		
		तिमाही समाप्त	नौ माह समाप्त	वर्ष समाप्त	तिमाही समाप्त	नौ माह समाप्त	वर्ष समाप्त
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2022
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	9,075.19	10,738.49	4,634.87	26,869.79	16,507.84	22,390.76
2	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ(+) / हानि(-)	118.89	699.82	(673.34)	366.50	(2,900.22)	(2,406.58)
3	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ(+) / हानि(-)	118.89	699.82	(673.34)	366.50	(8,237.35)	(8,072.71)
4	कर परचात अवधि के लिए शुद्ध लाभ(+) / हानि(-)	(630.21)	(29.89)	(696.18)	(1,060.47)	(6,050.55)	(5,719.10)
5	अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर परचात) और अन्य समग्र आय (कर परचात) शामिल]	(627.56)	(27.24)	(689.02)	(1,052.51)	(6,032.68)	(5,708.48)
6	प्रचलन इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक)	6,963.58	6,963.58	5,938.58	6,963.58	5,938.58	6,963.58
7	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (बालू और बंद प्रचालनों के लिए)	(0.91)	(0.04)	(1.17)	(1.52)	(10.19)	(9.59)
	बैलेंस और कालेन्डर ईपीएस (रु. में)	(0.91)	(0.04)	(1.17)	(1.52)	(10.19)	(9.59)

नोट :
1. वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 समय-समय यथासंशोधित के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत यथाभिहित भारतीय लेखाकरण मानकों (इंड एएस) के अनुपालन में हैं।
2. ऊपर सेबी (स्वीचड और अन्य प्रकटन आवश्यकताएं) नियमावली, 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए गए 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का एक सार है। 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की वेबसाइट (www.ansals.com) पर उपलब्ध है।
3. उपर्युक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई थी और निदेशक मंडल द्वारा 13 फरवरी, 2024 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में अनुमोदित किए गए।

स्थान : वैशाली, गाजियाबाद
दिनांकित: 13 फरवरी, 2024

CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

AKM CREATIONS LIMITED
(“TARGET COMPANY”) (FORMERLY KNOWN AS AKM LACE AND EMBROTEX LIMITED)
Regd office: C-110 G/F Bhola Nath Nagar, Shahdara Delhi, East Delhi-110032
Website: www.akmlace.com

Open offer for the acquisition of 22,39,166 (Twenty-Two Lakh Thirty-Nine Thousand One Hundred and Sixty-Six Only) Fully Paid-Up Equity Shares of the face value of Rs. 10/- each, representing 26.00% of the total equity and voting Share Capital of the Target Company by Arhat Touch Private Limited (herein after collectively referred as “Acquirer”) at a price of Rs. 15/- (Rupees Fifteen Only) per fully paid-up Equity Share (the “Offer Price”) payable in Cash pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended from time to time (“SEBI (SAST) Regulations”).

This Corrigendum (the “Corrigendum”) to the Letter of Offer (“LOF”) dated February 07, 2024, sent to Securities and Exchange Board of India is being issued by Fast Track Finsec Private Limited (“Manager to the Offer”), for and on behalf of Arhat Touch Private Limited (“The Acquirer”).

This Corrigendum is to be read in continuation of, and in conjunction with the LOF. Capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning assigned to such terms in the LOF (as the case may be), unless otherwise specified. The shareholders of AKM Creations Limited are requested to note the developments/ amendments with respect to and in connection with Open Offer as under:
BSE Limited shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of tendering Shares in the Open Offer. Equity shares of Target Company are listed on SME Platform of BSE Limited. At present the bid lot is of 3000 Equity Shares and hence bids in the open offer can be made for a minimum of 3000 Equity Shares and in multiples of 3000 Equity Shares thereafter.

Except as detailed in this Corrigendum, all other terms of the PA, DPS, DLOF & LOF (as the case may be) remain unchanged. The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Corrigendum to LOF (as the case may be) also for the fulfillment of the obligations of the Acquirers laid down in the Regulations, as amended from time to time. A copy of this Corrigendum to LOF will be available on SEBI's website- www.sebi.gov.in; BSE's website www.bseindia.com, and on Lead Manager website - www.ftfinsec.com;

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER

Fastrack Finsec Category-1 Merchant Banker	FAST TRACK FINSEC PRIVATE LIMITED Office No. V-116, First Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Telephone: +91-11-43029809 Email: mb@ftfinsec.com , Website: www.ftfinsec.com Contact Person: Mr. Vikas Kumar Verma SEBI Reg. No: INM000012500 CIN: U65191DL2010PTC200381
--	---

Date: 13.02.2024, Place: New Delhi

बोर्ड की ओर से एवं उन्हीं के लिए हस्ता./-
(हस्ताय अंसल)
पूर्णकालिक निदेशक एवं सीईओ
सीआईएन: 01216683